



# नास्टे प्लानेज 2021-22



## DEMO 2


### ORGANIC CHEMISTRY

### की महत्वपूर्ण बिंदुए

कक्षा- 12



ANU SIR



# Basic class of organic chemistry






यहाँ से शुरू करे  
कार्बनिक रसायन

आज अन् सर सीखाएंगे कि  
कार्बनिक रसायन के लिए  
कौन-कौन सा टॉपीक बहुत  
महत्वपूर्ण है?


# Organic chemistry introduction

- हाइड्रोकार्बन(Hydrocarbon): कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना सहसंयोजी यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
- हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके मुख्य तत्व हैं-C, H, O, N, X

Elements	C	H	O	N	X
बिंदु संरचना					
संयोजकता					
निर्जन युग्म (1p)					
संरचना					


Name	Functional Group	IUPAC Ending	
Alcohols	$R-OH$	-ol	 -al
Phenols		phenol	 -one
Ethers	$R-O-R'$	ether	 -oic acid
			 -ate

Aldehydes




-al

Ketones




-one

Carboxylic Acids



-oic acid

Esters



-ate

# समान्य सूत्र(General formula)



Homologous series	General formula	Functional group
Alkanes	$C_nH_{2n+2}$	
Alkenes	$C_nH_{2n}$	$C=C$
Alkynes	$C_nH_{2n-2}$	$C\equiv C$
Alkanols	$C_nH_{2n+1} OH$	$R-OH$
Alkanoic acids	$C_nH_{2n+1} COOH$	$R-COOH$
Alkanals	$C_nH_{2n+1} CHO$	$R-CHO$

# संरचना सूत्र (Structural formula)

**संरचना सूत्र** - रासायनिक यौगिकों के अणुओं की संरचना के चित्रात्मक निरूपण (graphical representation) को संरचना सूत्र (structural formula) कहते हैं। इससे पता चलता है कि अणु में कौन-कौन से परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इसमें अणु के अन्दर परमाणुओं के बीच के रासायनिक बन्ध भी दिखाये जाते हैं।

# Sigma and Pi-bonds

## Calculate the number of pi & sigma bonds



## Bond line structure (बंधन रेखीय संरचना)

## $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ , $\delta$ कार्बन परमाणु

**$\alpha$  कार्बन परमाणु** - जो कार्बन परमाणु क्रियाशिल मूलक से सीधे जुड़ा हो, उसे  $\alpha$  कार्बन कहते हैं।

## Degree of Carbon

प्राथमिक कार्बन<sup>1°</sup>

वे कार्बन जिनसे केवल  
एक ही कार्बन जुड़ा हो  
हो

द्वितीयक कार्बन<sup>2°</sup>




वे कार्बन जिनसे 2  
कार्बन परमाणु जुड़ा हो

तृतीयक कार्बन<sup>3°</sup>

वे कार्बन जिनसे 3  
कार्बन परमाणू जुड़ा

## Degree of Carbon

1°      2°      3°      4°



## Degree of Carbon

चतुर्थक कार्बन (Quaternary carbon) -वे कार्बन जिनसे सीधे 4 कार्बन परमाणु जुड़ा हो ।

# Degree of Haloalkane

**Primary (प्राथमिक)-** Haloalkane जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो



**Secondary (द्वितीयक)-** Haloalkane जो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो

**Tertiary (तृतीयक)-** Haloalkane जो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो



Haloalkane

Halogen






Alkane



Haloalkane off degree



# Haloalkane








## Degree of Alcohol

Primary (प्राथमिक)- Alcohol जिसमे OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो ( $1^\circ$ )

Secondary (द्वितीयक)- Alcohol जिसमे OH द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो ( $2^\circ$ )

Tertiary (तृतीयक)- Alcohol जिसमे OH तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो ( $3^\circ$ )





## Degree of Amines

**Primary (प्राथमिक)-** Amines जिसमे N एक कार्बन(ऐल्किल) से जुड़ा हो

**Secondary (द्वितीयक)-** Amines जिसमे N दो कार्बन(ऐल्किल) से जुड़ा हो

**Tertiary (तृतीयक)-** Amines जिसमे N तीन कार्बन(ऐल्किल) से जुड़ा हो

